SANGAM (INDIA) LIMITED

CIN: L17118RJ 1984PLC 003173

E - mail: secretarial@sangamgroup.com

Website: www.sangamgroup.com I Ph: +91-1482-245400-06



Ref: SIL/SEC/2022-23 Date: 27th August, 2022

The Manager

Department of Corporate Services

The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai – 400051

Scrip Code: 5251

The Manager,

Department of Corporate Services,

Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street,

MUMBAI - 400 001 Scrip Code: 514234

Ref: Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015

Sub: Submission of Notice Published in the Newspapers with regards to transfer of equity shares

to IEPF Account

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing Copies of Notice published in the Newspapers "Dainik Bhaskar" (Hindi) and "Business Standard" (English) for mandatory transfer of Equity Shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years to Investor Education and Protection Fund ('IEPF') account.

The above mentioned Paper Cuttings are also available on the Company's website www.sangamgroup.com.

Hope you will find the same in order and take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully

For Sangam (India) Limited

Anil Kumar Jain (Company Secretary)

FCS-7842

Bhilwara La

भीलवाड़ा भास्कर 27-08-2022

भीलवाड़ा भीलवाडा, शनिवार २७ अगस्त, २०२२ | १४ दैनिक भारकर

भीलवाड़ा

माहेश्वरी

अंतर्राष्ट्रीय

कपल क्लब

पांसल रोड स्थित

सूर्यास्त (शनिवार) सायं 6:49 बजे

सूर्योदय (रविवार) प्रातः 6:08 वजे

आज का पंचांग

• पंडित प्रो, विनोद शास्त्री

तिथि संवत् : भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार दोपहर 1:47 तक, विक्रम संवत् 2079, शाके 1944, हिजरी 1444, मुस्लिम माह मुहर्रम तारीख 28, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, 27 अगस्त।

सूर्योदय कालीन नक्षत्र मघा नक्षत्र रात्रि 08:26 तक, इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। शिव योग रात्रि 02:06 तक, इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। नाग करण दोपहर 01:47 तक, इसके बाद किस्तुघ्न करण रहेगा। ग्रह विचार (प्रातः 05:30) सूर्य-सिंह, चंद्र-सिंह, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरु-मीन, शुक्र-कर्क, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में स्थित है। दिशाशूल : पूर्व दिशा यदि जरूरी हो तो लौंग खाकर यात्रा कर सकते हैं।

शुभाशुभ ज्ञानम् : मंगल

अमावस्या, कुशाग्रहणी व

समय

06:08

07:32

14:00

20:26

02:51

शनैश्चरी अमावस्या, लोहार्गल

रोहिणी में रात्रि 8:36, देवपितृकार्य

मघा

मघा

पूर्वाफाल्गुनी

पूर्वाफाल्गुनी

यात्रा, मन्वादि, सती पूजन, राणी सती मेला झुंझुनूं (राज.)। राहुकाल

प्रातः ०९:०० से १०:३० तक। चौघड़िया मुहूर्त : प्रातः 7:43 से 9:18 तक शुभ का, दोपहर 12:28 से 5:14 तक चर, लाभ व अमृत का चौघड़िया रहेगा। आज विशेष :आज कुशाग्रहणी अमावस्या है। कुशाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च सकुन्दकाः। गोधूमा ब्राह्मयो मौजा दश दर्भाः सबल्वजाः। दस प्रकार की कुश होती हैं। इनमें जो मिल सके उसी को ग्रहण करें। जिस कुशा का मूल सुतीक्ष्ण हो, उसमें सात पत्ती हों, अग्रभाग कटा न हो और हरा हो, वह देव व पितृ दोनों कार्यों में बरतने योग्य होती है।

नामाक्षर

मो

म्

मे

मो

टा

सिंह

सिंह

सिंह

सिंह

ı	1	रजत
ı	2	रजत

राशिफल

3

आज जन्मे बच्चों के नामाक्षर व राशि

रजत

रजत

रजत

मेष : शुभ अंक...9 शुभ रंग...हरा अधिक खर्च और तनाव बेचैन कर सकता है। परिवार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेहनत व अनुशासन बड़ी सफलता दिला सकता है।

वृष : श्भ अंक... १ श्भ रंग...पीला मुश्किल हालात कड़े संघर्ष के लिए विवश कर देंगे। आप समान र्विचारधारा वाले लोगों से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

मिथुन : शुभ अंक...5 शुभ रंग...भूरा कार्यस्थल पर काम को बांटकर करें, बोझ कम होगा। बढते खर्च को नियंत्रण करने के चक्कर में मित्रों को नाराज कर लेंगे। विनम्र रहें।

कर्क : शभ अंक... 8 शभ रंग...जामनी मामूली खुशी के लिए बड़ा समझौता कर सकते हैं। लंबित कार्य जल्द ही पूरे होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। धैर्य रखें।

सिंह : शुभ अंक...1 शुभ रंग...गुलाबी आकस्मिक लाभ के अवसर मिलेंगे। संपर्क का पूरा फायदा मिलेगा। नई जिम्मेदारी आने से आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। यात्रा टालें।

कन्या : शुभ अंक...4 शुभ रंग...नीला प्रियजन के संबंध में शुभ समाचार पाकर खुशी होगी। बच्चों की पढ़ाई व प्रवेश संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। राजकीय मामले सुलझेंगे। तुला : शुभ अंक...2 शुभ रंग...काला

धरेलू तनाव कम होने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। नई परियोजनाएं अच्छा लाभ दिला सकती हैं। काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक : शुभ अंक...4 शुभ रंग...आसमानी

आप जो भी करेंगे पूरे मनोयोग से करेंगे। जिन लोगों की उपेक्षा कर रहे थे, वे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अपनों के साथ समय बीतेगा। धनु : शुभ अंक... 8 शुभ रंग...पीला


पारिवारिक आयोजन प्रसन्नतादायी हो सकते हैं। नए कारोबारी प्रस्ताव लाभदायी हो सकते हैं। विरोधियों की चालों का माकुल जवाब देंगे। मकर : शुभ अंक... १ शुभ रंग... सफेद

बौद्धिक एवं रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोग पुरस्कार अथवा सम्मान हासिल कर सकते हैं। कार्यस्थल की गुटबाजी हैरान कर सकती है। कुंभ : शुभ अंक... ९ शुभ रंग...नारंगी

आपका सहज व्यवहार लोगों को आपसे जोड़ेगा। व्यावसायिक सौंदे हाथ आ सकते हैं। रुचि का काम मिलने से आप उत्साहित रहेंगे। मीनः शुभ अंक...2 शुभ रंग...गुलाबी

प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के आसार हैं। जबर्दस्ती बात मनवाने की बजाय सहमति बनाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहेंगे।

कॉस वर्ड ६०६८



बाएं से दाएं

1. घटवाना, कम करने के लिए प्रेरित करना (2,4) अवरोध, स्कावट (2)

5. चंगुल, 5 उंगलियों सहित हथेली या पैर का तलवा (2) रस भेद के नौ प्रकार (4)

9. खलना, बुरा लगना (4)

11. रुई का पौधा (3)

12.कानों तक ढकने वाली टोपी,

हेलमेट (4)

13. कसकना, कष्ट देना (4) 15. गुमाश्ता (3)

16, भेंट, उपहार, नजर लग जाना (4) 19. बेस्वाद, स्वादहीन, फीका,

नीरस (4)

22.घोड़ा (2) 24. धाक, दबदबा (2)

25.इधर-उधर मुड़ते हुए जाना, प्रसन्ता से झमना (3.3)

ऊपर से नीचे

उक्ति, बयान (3)

5. पर, डैना (2)

बोझ, भार, दम (3)

2. गुनाह, अपराध, दोष (3) 3. वचन, कौल, जबान (2) 4. हाट, मॉर्केट (3)

²³ क दा विस्मित होकर इधर-उधर देखना, भौचक्का रह जाना.

सही हल क्रॉस वर्ड | 6067

ना म व र

अ मा व स्या न व सि खा

 प्रभावी, प्रभावशाली, गुणकारी (5) 10. उछलना-कृदना, नृत्य करना (3) 12. मश्किल, दष्कर (3) 14. छोटा कड़ाहा (3)

17. उत्तर, बदले की कार्यवाही, जोड. हल (3) 18. प्रसन्न और संतुष्ट, अनुकूल,

सहमत (2) 20. मानसिक आधात, धक्का, चोट (3)

21.रत्न, नग (3) 23.सस्ता, पथ, डगर (2) 25 औषधीय और फलदार पौधे लगाए



कॉलेज परिसर एवं फलदार

पौधे लगाए। देखरेख की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। जिला महासचिव निशा सोनी के नेतृत्व में संगठन सचिव चेतना जागेटिया सांस्कृतिक सचिव नीलम दरगड़, जिला शिक्षा सचिव लीला राठी एवं मीनाक्षी दरगड उपस्थित थीं।

त्यवसाय की खबर

अनुज राठी का आईआईएफटी में चयन हुआ



भीलवाड़ा | पीसी एजुकेशन के छात्र अनुज राठी का बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आईआईएफटी में चयन हुआ। अनुज ने आईपीमैट परीक्षा दी थी। इससे पहले अनुज का आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक में इंटरव्यू के लिए चयन हुआ था। अनुज के पिता जगदीश राठी बर्तन व्यवसायी और माता सुनीता राठी गृहिणी है। अनुज ने सफलता का श्रेय परिजन व संस्थान के निदेशक प्रशांतसिंह परमार को दिया। छात्र ने बताया कि संस्थान की अनुभवी फैकल्टी के सहयोग से 12वीं की पढ़ाई और एंट्रेंस परीक्षा दोनों में सफलता मिली। संस्थान के भारत तुलसानी ने बताया कि भीलवाड़ा संभाग से अभी तक बेहतरीन चयन पीसी एजूकेशन से हुए हैं। संस्थान पर दसवीं से 11वीं में आ रहे छात्रों के लिए विशेष रूप निशुल्क करिअर काउंसलिंग की जा रही है।

CLIDOKII 2022

			7	V			2	4	6				
		8			6	9				5			
6	Ī				2				8				
3		7				6		6					
			1				2	8	5				
_	T				7			2		8			
	Ì		2					1			4		
		3				2			1	6	8		
	Ī		8		4		T		7	2	5		
	8	1	9	6	2	4	7	5	ह	ल-3	232		
	6	7	4	3	8	9	1	2	कैसे खेलें- वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे -भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं।				
	2	4	1	5	7	6	8	3					
	4	9	2	1	6	5	3	7					
	5	2	3	8	9	1	4	6					
	3	6	7	4	5	8	2	9					
	1	5	8	7	3	2	9	4					
	7	8	6	9	4	3	5	1		भ्जन अंक रि			
	9	3	5	2	1	7	6	8	न हो।				

SECTOR-5, GANDHI NAGAR, CHITTORGARH (RAJ) 312001

Mail ID:mgimt04@yahoo.com

PH.01472-251101,251102, Fax - 01472-251103

REQUIRED

Priority to Female Candidates

MEWAR GIRLS COLLEGE

Qualification as per UGC norms

Hindi Lit, Economics, Sociology

Qualification as per UGC norms.

Qualification as per NCTE norms.

Qualification as per NCTE norms

Health Science, Jaipur norms

MEWAR GIRLS COLLEGE OF TEACHERS TRAINING

Lecturer for BSTC, (Perspectives in Edu./Foundation of Edu.,

MEWAR GIRLS INSTITUTE OF NURSING

MEWAR GIRLS AYURVED NURSE COMPOUNDER

TRAINING CENTRE

MEWAR EDUCATION SOCIETY

of 100 seated girls hostel.

experience of laboratories

Apply in confidence to the Chairman on "mgimt04@yahoo.com" or by

post to Mewar Education Society, Sector-5, Gandhinagar, Chittorgarh

(Raj.) -312001 latest by 10.09.2022 with 2 photos & Self attested copy

of testimonials.

दैनिक भास्कर में

शोक संदेश , तीये की बैठक,

श्रद्धांजलि, पुण्यतिथि

अब घर बैठे एक क्लिक या कॉल पर बुक करें

BhaskarAd.com

_{ойн} 9772019222

E mail: support.bhaskarad@dbcorp.in

NCTE Norms.

Psychology), B.Sc.(Mathematics,

Physics, Zoology, Botany, Chemistry),

For BBA, B.COM (ABST, EAFM, B. Adm.),

B.A.(Political Science, History, English Lit

B.C.A., PGDCA & Environmental Science.

For B.Ed.(Perspectives in Edu./Foundation

of Edu., Maths, Chemistry, Biology, Hindi,

English, Sociology, Political Science,

History, Geography, Book Keeping,

Accounts, Fine Arts, Performing Arts)

Science, Humanities & Social Sciences,

Mathematics, Hindi, Sanskrit, English)

Mental health Nursing, Qualification &

Experience as per Rajasthan University of

Qualification & Experience as per Rajasthan

Qualification & Experience as per RANC

Bachelor Degree with one year experience

Only Female candidate. Qualification as per

Bachelor Degree in Science with one year

Chairman

University of Health Science, Jaipur norms

Vice Principal-1,

Lecturers -

Lecturers -1

Tutors-

Lecturers-

Hostel Warden:

Lab Assistant:

Date: 26.08.2022

ओम के उच्चारण से मन शांत और एकाग्रता बढ़ेगी

सेमुमा गर्ल्स स्कूल में जगन्नाथपुरी योग वेदांत शिक्षा संस्थान के स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती ने कहा-

भारकर संवाददाता | भीलवाडा

बेहतर अध्ययन के लिए मन को शांत रखना जरूरी है। ओम का उच्चारण करने से मन शांत होगा और अध्ययन में एकाग्रता बढेगी।

यह बात शुक्रवार को जगन्नाथपुरी योग वेदांत शिक्षा संस्थान के स्वामी संत रामेश्वरानंद सरस्वती ने श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास एवं श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से सेठ मुरलीधर मानसिंहका बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय

प्रधानाचार्य आशा लड्डा ने धर्मसभा सरकारी विद्यालयों में प्रथम है। के प्रारंभ में संतों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक में कहा कि विद्यालय की व्यवस्था व में प्रार्थना सभा में छात्राओं से कही। विद्यालय स्वच्छता के मामले में छात्राओं में अनुशासन सराहनीय है।

विद्यालय विकास समिति के सदस्य एवं श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद सोडाणी ने उद्बोधन

Implant & Orthodontics Centre

दांत के नशों का ईलाज (RCT), दांत के मसाला भरना,

निकलने वाले दांत लगाना, स्कू वाले फिक्स दांत

प्रातः 9 से 2.30 बजे

In this connection, please note the follow

stand automatically cancelled

हाल ही में RK Colony में भी एक सेंटर खोला है

दांत निकासना, फिक्स दांत सगाना, दांतो को साफ एवं सफेद करना टेढ़े दांतों का ईलाज, मसुड़ों से खून, मुंह से बदबू आने का ईलाज

परामर्श

🥦 SANGAM (INDIA) LIMITED

Notice to Shareholders

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and

Protection Fund (IEPF) Shareholders are hereby informed that, pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and

he Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund)

Rules, 2016, as amended, the dividend declared on the equity shares for the Financial Year 2014-15,

which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investor Education and

Protection Fund (IEPF). The corresponding shares on which dividend were unclaimed for seven

onsecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules. In compliance

with the said Rules, the Company has sent individual notices to all the concerned members whose

shares are liable to be transferred to IEPF, the full details of such members are made available on the

1) In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and

transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, will

2) In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares

Further, any member whose name is appearing in the above-mentioned list shall send a request letter

along with self-attested copy of KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque leaf

along with latest utility bill as address proof for claiming the dividend on or before 28th November.

2022 and avoid transfer of your shares to the IEPF Authority. In case no valid claim in respect of

equity shares is received from the members of the Company by 28th November, 2022 or such other

date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out

in the said Rules, transfer the shares to the IEPF by the due date as per the stipulated procedure.

CIN-L171188.J1984PLC003173 * Repd. Off.: Atum, Chittorparti Reed, Shirwora 311001 (Rej.) Pb: +91 1482 245400 Fax :+91 1482 245450 • Email-secretarial@sangarquep.com Websita-www.sangarqruep.com

कार्यक्रम में विद्यालय की पारी प्रभार सीमा चतुर्वेदी, सीमा सोमानी, सांवर ओझा, दलपतसिंह जैन, किरप माहेश्वरी, रामधाम ट्रस्ट के विनो पंचोली, राकेश सिंहल, अनीता जै आदि का सहयोग रहा।

63 दुकानों पर ₹2.92 लाख के चालान काटे, प्लास्टिक जब्त

उपयोग रोकने के लिए नगर परिषद एवं प्रदुषण नियंत्रण मंडल ने कार्रवाई की। 63 दुकानों पर 2 लाख 92 हजार 700 रुपए के चालान बनाए। 700 किलो प्लास्टिक, सिंगल युज प्लास्टिक सामग्री जब्त की। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टाकिंग एवं बिक्री पर 1 जुलाई से प्रतिबंध है।

भीतवाड़ा |सिंगल यूज प्लास्टिक का दुषित पानी छोड़ने पर निगरानी के लिए लगाए सीसीटीवी

प्रोसेस हाउस से चोरी छुपे दूषित पानी छोड़ने पर निगरानी के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नई पहल की हैं। मंडल ने चितौडग़ढ़ रोड स्थित सभी प्रोसेस हाउस के नजदीक सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी हैं। अब तक छह स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए हैं। जल्द ही करीब 5 से 10 स्थानों पर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी ऑफिस से सीधे ही नजर रख सकेंगे। दुषित पानी छोड़ने का मामला सामने आते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंच जाएगी। विदित है कि विशेषकर बरसात के दिनों में प्रोसेस हाउस संचालकों द्वारा दूषित पानी नालों में छोड़ दिया जाता है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने भी प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे।

महर्षि दधीचि जयंती 4 को

भीतवाड़ा | जिला दाधीच मंडल वे तत्वावधान में महर्षि दधीचि व जयंती 4 सितंबर विश्वेश्वर तिवार दाधीच भवन प्राइवेट बस स्टैंड वे पास मनाई जाएगी। गोपाल शम ने बताया कि जिला दाधीच मंडर के अध्यक्ष जगदीश शर्मा पूजा व अभिषेक करेंगे। आमसभा होगी। 28 अगस्त को रक्तदान शिविर होगा। सितंबर को भजन संध्या होगी। रि व्यास ने बताया कि रक्तदान शिवि जिला दाधीच मंडल एवं दिधमध् सेवा समिति के तत्वावधान में होगा

कॉल करके अपॉन्टमेंट लेवे

पताः- 16-A-4, बापूनगर डिस्पेंसरी के सामने, बापूनगर ,भीलवाड़ा

Dr. Vineet Jain

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज को स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य बनाने पर आतिशबाजी की



भीतवाड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमिटी का सदस्य मनोनीत करने पर अहिंसा सर्किल पर इंदिरा गांधी ब्रिगेड के प्रदेश महामंत्री मंजू राठौड के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष ममता शर्मा उपस्थित थी। मंजू राठौड़ के इंदिरा गांधी ब्रिगेड का प्रदेश महामंत्री बनने पर सुलक्षणा शर्मां, ममता सिह्ना, डॉ. अनीता आर्य, उमा लोढ़ा विजेता राठौड़ ने शॉल ओढ़ाकर बधाई दी।

पर में नेमीनाथ भगवान की अंग रचना की



मंदिर में पर्युषण पर्व के तीसरे दिन शुक्रवार को भगवान की अंग रचना की गई। शाम महाआरती पर्युषण पर्व के दौरान रोज भगवान को अलग-अलग तरह से सजाया जा रहा है। रोज शाम को भक्त प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। पर्युषण के दौरान

पुर श्री नेमीनाथ जैन

मंदिर में रंग-बिरंगी विद्यत सजावट की है।

भीलवाड़ा से नाकोड़ा तीर्थ तक पैदल यात्रा होगी। राजेश बाबेल ने बताया कि 2 सितंबर को सुबह 6.15 बजे चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर महावीर पार्क से ध्वज के साथ पदयात्रा खाना होगी। राकेश कूकडा ने बताया कि बैंड व नाकोड़ाजी के रथ के साथ 325 किमी लंबी पदयात्रा रोज 35 से 40 किमी चलेगी। 11 सितंबर को नाकोड़ाजी को ध्वज जाएंगे।

दुष्कर्म किया, आपत्तिजनक फोटो खींच वायरल करने

भारकर न्यूज

भीमगंज थाने में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ होटल में ले जाकर दिखाकर दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक खींचकर

फोटो करने वायरल की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। भीमगंज थाना

विक्रम

प्रभारी

सेवावत बताया कि एक महिला ने रिपोर्ट दी कि चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा निवासी बालू पुत्र बद्रीलाल सुथार से उसकी जान-पहचान हुई थी। बालू सुधार गत 21 अगस्त को दर्शन के बहाने कोटडी ले गया। दर्शन के बाद भीलवाडा वापस शहर में लाया। रोडवेज स्टैंड क्षेत्र बस

ले

किया।

चाकू दिखाते हुए

जाकर

नाकोड़ा तीर्थ तक पैदल यात्रा 2 सितंबर से

भीलवाड़ा | श्री नाकोड़ा पाएर्व भैरव पदयात्रा संघ के तत्वावधान में

एजुकेशन की धमकी दी

म्युजिक- डांस

Guitar Classes & Intermediate Players

Azad Nagar, Bhilwara Contact: 80057-90332 सर्विसेस

कार स्कूटी सीखिए, 10 मिनट

Gym, Fitness n Yoga



चाकू दिखाकर

EDUCATION



& HoD in Integrated B.Ed Contact on 9829625844 or send your CV on asmie2012@gmail.com Mahapragya College, Mahapragya Nagar, Asind, Distt: Bhilwara

कार्यालयकर्शी हैंडलूम व फर्नीशिंग शोरूम पर कार्य करने हेतु अकाउंटेट,

नीकॉलर (१५), रिकोलिंग

,ऑफिस वर्क (१०), कालसेण्टर

(15), SALES EXECUTIVE

EXPERIENCE) टेलीकालिक

(30) 10ft /12ft /Graduate

ਜ਼ਿਵੀ 10000/- - 30.000/-

8426906980, 9784785799

कोरियर कंपनी में काम हेतु पार्ट एवं

फुल राइम लड़को की संपर्के पुष्पक

कोरियर 10 सदर बाजार लक्ष्मण

जनरल स्टोर के सामने भीलवाड़ा

TELLECALLER FEMALE,

SERVICE ENGINEER

REQUIRED FOR SK

POWER SOLUTION.

PNT CHOURAHA, PUR

ROAD, BHILWARA CALL-

9649017777, 9119128888.

(ELECTRICAL

MECHANICAL

9166227777

(20). TeleCaller

9462254204

(BPO), (FRESHER

आवश्यकता

रिक्षाकर्मी

Acharya Shri Mahapragya

Institute Excellence

REQUIRED

Assistant Prof in History

Geography, Hindi Lit.,

Political Science

Assistant Prof in

Mathematics, Physics

Chemistry, Botany, and

Zoology

Assistant Prof in Education

SERVICES शेल्समैन, हेल्पर, डाइवर, गार्ड की संपर्क समय दोपहर 2 से 5 लोभवंद मांगीलाल चहरवाला प्रा. लिमिटेड बालाजी मंदिर भीलवाड़ा भीलवाडा मान्यता प्राप्त संस्थान

८० पासपोर्ट, ब्रह्मजिल फोटो -/180 उजिएको, विजयिष्ट विशि ਕਿਗਿਟਿ**ਅ**ਜ਼ਾਤ 300∕- ਕॉलੀਕਤ ऑपोजिट रोडवेज भीलवाड़ा

हेल्पर की।संपर्क लोटस द गारमेंड APPOINTMENT मॉल प्रताप टाकीज़ रोड भीलवाड़ा

Staff, Workshop Staff.

Calling Staff. Attractive

Best Salary Mail your

ES@Gmail.com Call:

सेल्स एण्ड मार्केटिग Sales/ Marketing

8368573411 अल्य

CV: DEVVRATAUTOMOBIL

प्रतिष्ठित कोरियर के. में डिलीवरी हेत लडकों की आवश्यक्ता वेतन-9000+ PF, ESI+ पेट्रॉल Mob.-7300098016 बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य ।

फर्नीचर शोरूम पर कार्य करने हेतु लड़के की आवश्यकता स्थानीय की प्राथमिकता। पता- वी.आर. फर्नीवर्स, राजेन्द्र मार्ग, भीलवाडा मो. 93145-15630

Work From Home

अपने कंप्यूटर , लैपटॉप ,स्मार्टफोन पर form fill करे weekly payment (पार्टटाइम फुलटाइम) Balaji Infotech solutions

> ज्योतिष ASTROLOGY

<u>ब्रह्माविद्यतिश्ववी</u> केवल एक परामर्श आपक भाग्य बदल सकता है। े राशिएन रुद्राक्ष । उपरत्न नखारङायमण्ड (राशि रत्न शास्त्रम्) 34, राणा संगा मार्केट, चित्ती

Mob .: - 98297 73980 (M)

BOHRA विवासी गांधीनगर. चित्रीहुगढ़ रस लिया है । भविष्य में मुझे नये नाम से जाना पहचाना I have changed my name NEETA LACHWANI to YOGITA PARWANI W/O MAHENDRA PARWANI

Kailash Nagar 1 Nimbahera

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF. However, any person whose shares and unpaid dividend is ransferred to the IEPF may claim the shares and dividend from the Investor Education and Protection Fund Authority ('IEPF Authority) as per the procedures prescribed under the Rules. For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, at "Bigshare Services Pvt. Ltd. (Unit: Sangam (India) Ltd.) ("RTA") at Office No S6-2, 6th loor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai 400093, Maharashtra, India" Tel: 922-52638200 Email Id: investor@bigshareonline.com. Place: Bhilwara (A.K.Jain),

भारकर CLASSIFIED

ऑटोमोबाइल्स

AUTOMOBILE Interior n Exterior

Gix, Auto Form, Auto Cruze, Gallo, Rd. Key Safe, Infinity, Blaupunkt, Boss, Maxat, Go Mechanic, Jbl. Mtai

आजादी के 75 वर्ष पुरे होने के उपलब्ध में 10000/- की खरीददारी कुम्भा सर्कल रोड, बीज गोदाम के सामने, आजाद नगर, भीलवाडा





मैंने मेरा नाम MUSTAFA से ਪਹਿਰਰਿੰਨ ਰਹਾ ਕਾਂਗ ਕਾਂਗ MUSTEA

BOHRA S/O ASGAR ALI

Add: D16 shastri Nagar Bhilwara (Rajasthan) In future I Will be known as NEETA LACHWANI

Name Change I, Harsh Verdhen Parashar S/o Lalit Kumar Parashar R/o C 72 have changed my name to Harsh Verdhan Parashar for all future purposes.


Get insights

from wherever you are

The **ALL-NEW Business Standard App**

Making Devices Smart, Insight Out.

Our all-new app brings a new level of ease in accessing what matters to you the most, from wherever you are. Your favourite columns, stock market updates, editorials, analysis and more! It's the same insightful business journalism you expect from us, with rich and intuitive features to enhance your reading experience.





The Business Standard Morning Show

New episodes at 8am, Monday to Friday



Go offline

Online. Offline. Anytime. Stay connected, always



Read to me Listen on the move



Daily market insights

Get detailed analysis and updates on the share market



Dark mode

Introducing dark mode for easy reading



Quick reads

For when you don't have time



Business Standard Insight Out





business-standard.com

SANGAM (INDIA) LIMITED CIN-L17118RJ1984PLC003173 • Regd. Off.: Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara-311001 (Raj.)

Ph:+91 1482 245400 Fax :+91 1482 245450 ◆ Email· secretarial@sangamgroup.com Website- www.sangamgroup.co Notice to Shareholders Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and

Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that, pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 an the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund Rules, 2016, as amended, the dividend declared on the equity shares for the Financial Year 2014-15 which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investor Education an Protection Fund (IEPF). The corresponding shares on which dividend were unclaimed for seve consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules. In compliance vith the said Rules, the Company has sent individual notices to all the concerned m shares are liable to be transferred to IEPF, the full details of such members are made available on t Company's website at www.sangamgroup.com. In this connection, please note the following:

1) In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, will tand automatically cancelled

2) In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the share liable for transfer to the IEPF.

Further, any member whose name is appearing in the above-mentioned list shall send a request lette along with self-attested copy of KYC documents of the shareholder like PAN, cancelled cheque lea ong with latest utility bill as address proof for claiming the dividend on or before 28th Novembo 2022 and avoid transfer of your shares to the IEPF Authority. In case no valid claim in respect of equity shares is received from the members of the Company by 28th November, 2022 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set ou n the said Rules, transfer the shares to the IEPF by the due date as per the stipulated procedure Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF. However, any person whose shares and unpaid dividend transferred to the IEPF may claim the shares and dividend from the Investor Education and Protectio und Authority ('IEPF Authority) as per the procedures prescribed under the Rules. For any queries o the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfe Agents, at "Bigshare Services Pvt. Ltd. (Unit: Sangam (India) Ltd.) ("RTA") at Office No S6-2, 6t floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai 100093, Maharashtra, India" Tel: 022-62638200 Email Id: investor@bigshareonline.com

(A.K.Jain

Company Secretary

Place: Bhilwara Date : August 27,2022

APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 23.05.2022 calling upon the Borrowers VINOD SHARMA AND NEELAM SHARMA to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.20,39,153.10 (Rupees Twenty Lakhs Thirty Nine Thousand One Hundred Fifty Three and Paise Ten only) against Loan Account No. HHLNOD00269763 as on 18.05.2022 and interes thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 o the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 23.08.2022.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount o Rs.20,39,153.10 (Rupees Twenty Lakhs Thirty Nine Thousand One Hundred Fifty Three and Paise Ten only) as on 18.05.2022 and interest thereon

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 o the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

THIRD FLOOR, WITH ROOF RIGHTS OF BUILT-UP PROPERTY BEARING NO NO K 50. ADMEASURING 75 SQ. YARDS I.E 62.71 SQ. MTRS., (SIZE 22.5' X 30' OUT OF KHASRA NO. 5 RECTANGLE NO. 91 (91/5), SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE HASTSAL DELHI, AREA ABADI KNOWN AS K BLOCK LITTAM NAGAR WITH PROPORTIONATE RIGHTS OF USE OF THE LAND UNDERNEATH WITH COMMON STAIR CASE PASSAGES ENTRANCE SUBMERSIBLE CONNECTION WITH SEPARATE WATER AND ELECTRIC CONNECTION (SOUTHERN PORTION), BLOCK K.-50 BAL UDHYAN ROAD UTTAM NAGAR, NEW DELHL-110059

BOUNDED BY

WEST : PLOTNO. K 51 EAST : GALI 15' WIDE SOUTH : GALL15' WIDE NORTH: PORTION OF PLOT

Date: 23.08.2022 **Authorised Officer** Place: NEW DEL HI INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

> APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 27.05.2022 calling upon the Borrowers PARMINDER KAUR AND UPKAR SINGH to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 15,48,222.86 (Rupees Fifteen Lakhs Forty Eight Thousand Two Hundred Twenty Two and Paise Eighty Six Only) against Loan Account No. HHLRHN00408749 as on 23.05.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 23.08.2022.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 15,48,222.86 (Rupees Fifteen Lakhs Forty Eight Thousand Two Hundred Twenty Two and Paise Eighty Six Only) as on 23.05.2022 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 o the $\operatorname{\mathsf{Act}}$ in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FIRST FLOOR WITHOUT ROOF/TERRACE RIGHTS TOWARDS RIGHT HAND PORTION FROM FRONT VIEW, EASTERN PORTION OF BUILT UP PROPERTY BEARING PLOT NUMBER 8 ADMEASURING 50 SQUARE YARDS I.E 41.8 SQUARE METER APPROX OUT OF KHASRA NUMBER 18/22 SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE MATIALA, AREA ABADI KNOWN AS COLONY NANHEY PARK IN BLOCK-C, UTTAM NAGAR, DELHI-110059 WITH PROPORTIONATE RIGHTS OF THE LAND UNDERNEATH ALONG WITH COMMON ONE TWO WHEELER PARKING SPACE AT THE GROUND FLOOR AND THE PLOT IS BOUNDED AS FOLLOWS:-

EAST : PLOTNUMBER 9 WEST : ENTRY/LHS FLAT/PLOTNUMBER 7

NORTH: O/PROPERTY. SOUTH: ROAD 20 FEET WIDE Date: 23.08.2022 Authorised Officer INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

